

\*प्रेस नोट\*

\*थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा शातिर लुटेरा सुरेन्द्र कुमार यादव उर्फ मूसे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये आभूषण व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व स्कूटी बरामद\*

दिनांक 25-12-2020 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस को देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक शातिर लुटेरा जो पूर्व में कई लूट की घटनाओं को अन्जाम दे चुका है इस समय नाथूपुर डगरा क्रासिंग के पास से जाने वाला है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर, एक संदिग्ध व्यक्ति जो स्कूटी से आता दिखाई दिया को मुखबिर की निशानदेही पर रोकने का प्रयास किया कि अचानकर पुलिस वालो को देखकर हड़बडाहट में वह स्कूटी से गिर गया तथा उठकर भागने लगा जिस पर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 17.20 बजे पर उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार यादव उर्फ मूसे पुत्र स्व० पन्ना लाल यादव निवासी सुन्दरपुर नाला के पास थाना लंका जनपद वाराणसी हाल निवासी ग्रा० रमसीपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मैं पूर्व में थाना लंका से जेल जा चुका हूँ उसी वजह से भाग रहा था। पकड़े गये अभियुक्त की जामा तलाशी व निशानदेही पर थाना मण्डुवाडीह व भेलूपुर क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमें से संबंधित लूट के आभूषण बरामद किये गये। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- सुरेन्द्र कुमार यादव उर्फ मूसे पुत्र स्व० पन्ना लाल यादव निवासी सुन्दरपुर नाला के पास थाना लंका जनपद वाराणसी हाल निवासी ग्रा० रमसीपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष\*

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 2 अदद मंगल सूत्र व 02 अदद जंजीर (चेन), लूट की घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल अपाचे (वाहन संख्या यू०पी० 65 सी०यू० 3858) सफेद रंग की सम्बन्धित मु०अ०सं० 299/2020 व 344/2020 धारा 392/411 भादवि० थाना मण्डुवाडीह वाराणसी व मु०अ०सं० 508/2020 धारा 392 भादवि० व मु०अ०सं० 571/2020 धारा 392 भादवि० थाना भेलूपुर वाराणसी व एक अदद स्कूटी यू०पी० 65 डी०एस० 6980

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

- प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र राम प्रजापति, एस एस आई राजेश त्रिपाठी, उ०नि० लवकुश यादव, व उ०नि० रामपूजन विन्द व का० हंसराज पाल थाना मण्डुआडीह जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 25.12.2020 को थाना लंका पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अपराध व अपराधियों की रोकथाम व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की जा रही थी। चेकिंग के दौरान चितईपुर तिराहे पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि एक नीले रंग के कंटेनर में गोवंश लादकर प्रयागराज की तरफ से बंगाल वध हेतु ले जाया जा रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना लंका पुलिस द्वारा मुखबिर के साथ उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबिर कि निशानदेही पर एक कन्टेनर को रुकने का इशारा किया गया तो कन्टेनर चालक द्वारा पुलिस बल को जान से मारने की नियत से कन्टेनर को चढाने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बच गये। चालक व परिचालक कूद कर भागने लगे जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम सादाब पुत्र हारून निवासी मितवापुर थाना कोखराज जनपद कौशांबी व दूसरे ने **मोफारूख निवासी मितवापुर थाना कोखराज 0मो 0दानिश पुत्र स्व 0 जनपद कौशांबी बताया।** उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, थाना लंका पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ विवरण\*-**

पूछताछ में पकड़े गये व्यक्तियों ने बताया कि उक्त सरफराज खान नाम के व्यक्ति की है। गाड़ी के आगे आगे फैजान नाम का व्यक्ति चलता है जो रास्ते में सबकुछ ठीक होने की सूचना हमलोगों को देता रहता है जिसके आधार पर हमलोग गाड़ी आगे बढ़ाते रहते हैं। बरामद माल के बारे में पूछने पर बताया कि पोलो नाम के व्यक्ति से हम माल लादते हैं, इस कार्य में हम पांच लोग सलिस है।

कन्टेनर की तलाशी लेने पर उसमें क्रूरता पूर्वक 27 राशि गोवंश **मृत्यु 9) तथा (जीवित 18** लदे हुए मिले।

**\*पंजीकृत मुकदमा\***

- मु/ 885 0सं0अ020 धारा 307/420/467/468/471/429/3 भादवि व 429//ए58 गो 0नि0 अधि0 तथा पशु क्रूरता निवारण अधि थाना लंका वाराणसी 11

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण\* -**

1. सादाब पुत्र हारून निवासी मितवापुर थाना कोखराज जनपद कौशांबी

## 2. मोफारूख निवासी मितवापुर थाना कोखराज जनपद कौशांबी 0मो 0दानिश पुत्र स्व 0

### \*बरामदगी का विवरण\*-

1. कुल मृत्य 9) सांड जिसमें/राशि बैल 27 तथा (जीवित 18
2. एक कन्टेनर चार पहिया वाहन
3. भिन्न भिन्न नम्बर के दो नम्बर प्लेट

### \*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\*

प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार पांडेय, निरीक्षक संध्या सिंह, उजय प्रकाश सिंह 0नि0, हेनागेन्द्र चौहान 0का0, काशोभनाथ 0, कामंतोष 0, काअजय कुमार गौड़ 0, कादुर्गेश 0 सरोज, काकेतन कुमार 0, मु आ चालक0हरिकान्त थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

\*थाना सारनाथ पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे सात व्यक्तियों को गिरफ्तारी किया गया, कब्जे से 36400/- रूपये बरामद\*

दिनांक 25.12.2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्तगण व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि सोना तालाब पोखरा के किनारे बने हौसिला प्रसाद के टीन शोड के नीचे कुछ लोग बैठकर ताश के पत्ते से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मुखबीर को साथ लेकर उक्त स्थान से मुखबिर कि निशानदेही पर एक बारगी दबिश देकर जुआ खेल रहे सात व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया गया। मौके से 36400/- रूपये नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुए। पकड़े गये व्यक्तियों को करीब 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*पंजीकृत मुकदमा\*

➤ मु0अ0सं0 724/20 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सारनाथ वाराणसी।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण\* -

- 1.अमित भारद्वाज पुत्र अभय भारद्वाज निवासी अनमोल नगर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 35 वर्ष
2. पप्पू गुप्ता पुत्र स्व0 सालिक गुप्ता निवासी S-2P नई बस्ती थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष
3. ओमप्रकाश राजभर पुत्र स्व0 जानकी प्रसाद निवासी सोना तालाब थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 43 वर्ष
4. मनोज कुमार चौरसिया पुत्र दुर्गा प्रसाद चौरसिया निवासी चन्द्रा चौराहा थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 46 वर्ष
5. राजन यादव पुत्र स्व0 विजय यादव निवासी 3/160 शान्ति पुरम कालोनी थाना पाण्डेयपुर लालपुर वाराणसी उम्र 30 वर्ष
6. सतीश कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 छक्कन प्रजापति निवासी 4/98 दौलतपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र 28 वर्ष

7. हौसिला प्रसाद पुत्र स्व 0जानकी प्रसाद नि 0सा19 0/ 40सोना तालाब थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 59 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण\*-**

- माल फड़ व जामा तलाशी के 36400/- रुपये, ताश के 52 पत्ते, वाहन मो सुपर 0सा0स्पलेण्डर नं 0UP65CX 7135व मो पल्सर 0सा0UP65DE 3107

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

- प्र0नि0 इन्द्रभूषण यादव, व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 विनायक सिंह, का0 आलोक कुमार सिंह, का0 राकेश कुमार, का0 सूर्यभान कुमार

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 26.12.2020 को थाना लोहता पुलिस टीम को देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 24.12.2020 को थाना लोहता क्षेत्र में फातिमा की हत्या के संबंध में पंजीकृत मु0अ0स0 0305/2020 धारा 302 भा.द.वि. से सम्बन्धित अभियुक्त अनवर, पिसौरपुल के पास खड़ा है यदि जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर थाना लोहता पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर उक्त स्थान पर खड़े एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अनवर पुत्र मुर्तजा निवासी कोटवां पानी टंकी के पास थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष बताया। उक्त अभियुक्त को समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*विवरण पूछताछ\*

पकड़े गये अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने रोज रोज के झगड़े से तंग आकर गुस्से में सब्जी काटने वाली चाकू उठाकर अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गयी और मैं घर से भाग गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या करने में प्रयुक्त चाकू को मौके से ही सरपत की झाड़ी में से निकालकर बरामद किया गया।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण\* -

1. अनवर पुत्र मुर्तजा निवासी कोटवां पानी टंकी के पास थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष

\*पंजीकृत अभियोग का विवरण\* -

- मु0अ0स0 0305/2020 धारा 302 भा.द.वि. थाना लोहता वाराणसी ।

\*बरामदगी का विवरण\*—

- आलाकत्ल एक अदद चाकू ।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण\*—

थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, उ0नि0 शिव सहाय सरोज, उ0नि0 राधे श्याम सिंह, उ0नि0 अक्षय कुमार सिंह, का0 रामाश्रय सरोज, का0 लोकेश कुमार, का0 विजय कुमार, का0 वीर बहादुर, का0 प्रदीप कुमार थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 114/2020 दिनांक: दिसम्बर, 26/2020

\*प्रेस नोट\*

\*थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा एक लाख की रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्त समीर अहमद व मोहम्मद सेराज गिरफ्तार\*

आज दिनांक 26.12.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्तगण व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जैतपुरा में एक लाख की रंगदारी मांगने के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 255/20 धारा 386/504/507 भादवि में वांछित अभियुक्तगण समीर अहमद पुत्र हनीफ अहमद निवासी D- 33/103 खालिस पुरा थाना दशाश्वमेध जिला वाराणसी व मोहम्मद सेराज पुत्र मोहम्मद शमीम निवासी C-13 /280 F-A लहंगपुरा औरंगाबाद थाना चेतगंज जनपद वाराणसी को नक्खीघाट तिराहे के पास से समय 11. बजे 00गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण\* -

- 1- समीर अहमद पुत्र हनीफ अहमद निवासी D- 33/103 खालिस पुरा थाना दशाश्वमेध जिला वाराणसी
- 2- मोहम्मद सेराज पुत्र मोहम्मद शमीम निवासी C-13 /280 F-A लहंगपुरा औरंगाबाद थाना चेतगंज जनपद वाराणसी

\*अपराधिक इतिहास\* - मु0अ0सं0 255/20 धारा 386,504,507 भादवि थाना जैतपुरा वाराणसी।

\*बरामदगी\* --- दो अदद मोबाइल।

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण \*--

उ0नि0 मो0 अकरम, उ.नि. दयाशंकर यादव, हे0का0 राकेश कुमार राय, हे0का0 धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, का0 अखिलेश यादव थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल

# जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:sspvn-s-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 115/2020 दिनांक: दिसम्बर, 26/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा आज दिनांक 26.12.2020 को थाना कैण्ट व थाना शिवपुर में आयोजित समाधान दिवस में प्रतिभाग कर जनसमस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।-साथ ही थाना कैण्ट व थाना शिवपुर का निरीक्षक कर प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गए।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 116/2020 दिनांक: दिसम्बर, 26/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 26-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*25 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 235 व्यक्तियों से रु0-3400/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 537 वाहनों का चालान, 12 वाहनों को सीज तथा 138 वाहनों से रु0-1,26,100/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 117/2020 दिनांक: दिसम्बर, 26/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 126 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 2668 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 498 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 120 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1780 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व 101 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।